



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 6—अप्रैल 12, 2013 (चैत्र 16, 1935)
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 6—APRIL 12, 2013 (CHAITRA 16, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 01 मई 2012

सं. ए-36011/13/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, कु. तीनैलिहंग किपगेन सुपुत्री श्री सेहकाई किपगेन को 01 मई, 2012 के पूर्वाह्न से, राष्ट्रपति सचिवालय में निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 03 जुलाई 2012

सं. ए-36011/10/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री सौरभ विजय भा.प्रशा. सेवा (महा : 98) द्वारा वर्तमान में, राष्ट्रपति सचिवालय में धारित उप सचिव पद को 01 जुलाई, 2012 से उनके लिए व्यक्तिगत रूप से, निदेशक के रूप में पुनः पदनामित करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 24 जुलाई 2012

सं. ए-35011/6/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री नक्कू राम यादव, को 24 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से, राष्ट्रपति सचिवालय में, अधीक्षक, राष्ट्रपति उद्यान के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 25 जुलाई 2012

सं. ए-36011/18/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती ओमीता पॉल, भा. सू. सेवा (73) (सेवानिवृत्त) को 25 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2012

सं. ए-36011/26/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री प्रद्युत गुहा को 30 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

सं. ए-36011/28/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, डॉ. मोहसिन वली, कंसल्टेंट (मेडिसिन), सी.जी.एच.एस., दिल्ली, को 30 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के चिकित्सक के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

सं. ए-36011/27/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री मृणाल कांति मुकर्जी, को 30 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2012

सं. ए-36011/21/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री रजनीश, भा.प्रशा. सेवा (हि. प्र. : 1997) को 25 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

सं. ए-36011/19/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री प्रदीप गुप्ता, भा.आ.नि. से. (1986) को 25 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

सं. ए-36011/20/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री सुरेश यादव, भा.रा. सेवा (आयकर : 1994) को 25 जुलाई, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में निदेशक स्तर पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 01 अगस्त 2012

सं. ए-39011/7/11-प्रशा.--श्री रमेश कुमार विधानी, अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, 31 जुलाई, 2012 के अपराह्न से अधिवर्षिता अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-36011/29/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री सिद्धार्थ शर्मा, भा.अ.ले. सेवा (1996) को 01 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में निदेशक स्तर पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 02 अगस्त 2012

सं. ए-36011/32/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री वेणु राजामणि, भा.वि. सेवा (1986) को 01 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 03 अगस्त 2012

सं. ए-36011/25/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती शमीमा सिद्दिकी, भा. से. सेवा (आई.आर.एल.ए. सं. : 14674), को 03 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के उप प्रेस सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 17 अगस्त 2012

सं. ए-36011/30/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री योगेश शर्मा, को 03 अगस्त, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 29 अगस्त 2012

सं. ए-36011/38/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती गायत्री इस्सर कुमार, भा.वि. सेवा (1986) को 29 अगस्त, 2012 के अपराह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव एवं सोशल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 04 सितम्बर 2012

सं. ए-36011/46/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, डॉ. थॉमस मैथ्यु, भा.प्रशा. सेवा (केरल : 83) को 03 सितम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 12 सितम्बर 2012

सं. ए. 27011/14/11-प्रशा.--श्रीमती गायत्री इस्सर कुमार, राष्ट्रपति की संयुक्त सचिव एवं सोशल सेक्रेटरी को, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के तहत, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के उपखण्ड (1) अथवा खण्ड (ए) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त न होने पर उक्त अधिनियम के तहत अथवा इस सचिवालय के जन सूचना अधिकारियों के निर्णयों से असंतुष्ट होने पर सूचना मांगने वाले व्यक्तियों की अपील सुनने के लिए, श्रीमती विजय ठाकुर सिंह, राष्ट्रपति की संयुक्त सचिव व सोशल सेक्रेटरी,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलीय प्राधिकारी, जो कि अपने मूल विभाग, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में कार्यभार ग्रहण करने के लिए इस सचिवालय से कार्यमुक्त हो चुकी हैं, के स्थान पर अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 01 नवम्बर 2012

सं. ए-39011/12/11-प्रशा.--श्री पी.के. मैथ्युकुट्टी, प्रधान निजी सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, 31 अक्टूबर, 2012 के अपराह्न से अधिवर्षिता, अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 15 नवम्बर 2012

सं. ए-36011/52/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री शकील आलम, भा.आ. सेवा (2001) को 15 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में विशेष कार्य अधिकारी (संदर्भ एवं शोध) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 19 नवम्बर 2012

सं. ए-34011/4/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री कवीन्द्र देवगन, सहायक को 16 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

सं. ए-34011/4/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री एस.एस. भामरा, सहायक को 16 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

सं. ए-34011/4/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री आर.के. राजपूत, अनुभाग अधिकारी को 16 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

सं. ए-34011/4/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री चरणजीत सिंह, सहायक को 16 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

सं. ए-34011/4/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री जॉन बसील, अनुभाग अधिकारी को 16 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में अवर सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

सं. ए-34011/4/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्रीमती किरण बाला, निजी सचिव को 14 नवम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 10 दिसम्बर 2012

सं. ए-36011/64/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री अनुपम कुमार नाग, को 06 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 12 दिसम्बर 2012

सं. ए-36011/66/11-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री गौहर हुसैन को 12 दिसम्बर, 2012 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक राष्ट्रपति सचिवालय में निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव

दिनांक 01 फरवरी 2013

सं. ए-39011/22/11-प्रशा.--श्री योगेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रपति सचिवालय, 31 जनवरी, 2013 के अपराह्न से अधिवर्षिता, अवधि के बाद सेवानिवृत्त हो गये हैं।

जे. जी. सुब्रमणियन, अवर सचिव (प्रशा.)

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 18 मार्च 2013

सं. ए. 22012/1/2013-पीएमई--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री एल. मदना कुमार रामचन्द्र का नाम अवर सचिव की वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, उन्हें प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 26 नवम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से नियमित अवर सचिव नियुक्त करते हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2013

सं. आरएस. 3/1/(1)/2013/20-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निम्नलिखित विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारियों को 24 फरवरी, 2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में नियमित आधार पर

15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ सहायक निदेशक के ग्रेड में नियुक्त किया है :--

(i) श्री आर.के. मेकॉल्ट सिंह

(ii) श्री ज्ञान चंद

2. श्री आर.के. मेकॉल्ट सिंह और श्री ज्ञान चंद, सहायक निदेशक के ग्रेड में श्रीमती दुरूपति जेतवानी से वरिष्ठ होंगे।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

सं. आरएस. 3/1/(1)/2012/21-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में वरिष्ठ विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली सहायक के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 26 अक्टूबर, 2012 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में स्वस्थाने आधार पर 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन तथा नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में स्थापनापन रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है :--

1. श्री देवाशीष सेन
2. श्रीमती कुमुद शर्मा
3. श्रीमती किरण बाला सुकरवाल
4. श्री अनिल कुमार भाटिया
5. श्री प्रताप शिर्नॉय
6. श्रीमती मंजुला हरित
7. श्री आशिष देश राज
8. श्री मदन मोहन
9. श्री चरणजीत सिंह
10. श्री संजय कुमार
11. श्री राजेश हरित
12. श्री राजेन्द्र कुमार
13. श्री अजिन जे. आर.
14. श्री दीपक भोरिया
15. श्री अशरफ करीम
16. श्री कुलदीप सिंह
17. श्री पी.पी. रुमन
18. श्रीमती गिरिजा कामथ
19. श्रीमती मधु मंगला
20. श्री संदीप पांडे
21. श्रीमती सतीन्दर कॉर गुलाटी

2. उपर्युक्त नियुक्तियों पर स्वस्थाने प्रोन्नति योजना, जिसे आर एवं सीएस आदेश सं. 5/2009, दिनांक 26 नवम्बर, 2009 के द्वारा अधिसूचित किया गया था, में अंतर्विष्ट उपबंध लागू होंगे।

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

दिनांक 19 मार्च 2013

सं. आरएस./3/1(1)/2013/23-कार्मिक--इस सचिवालय की दिनांक 30 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना सं. आरएस.3/1/1/2009/105-कार्मिक और दिनांक 4 मई, 2010 की अधिसूचना सं. आरएस. 3/1/1/2010/36-कार्मिक द्वारा पहले स्वस्थाने आधार पर विधायी/समिति/नयाचार/अधिशाली अधिकारी के ग्रेड में नियुक्त निम्नलिखित व्यक्तियों को 19 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति में समायोजित किया गया है :--

1. श्रीमती कैथरीन जॉन एल.
2. श्री संजीव खोखर
3. श्री नवनीत जून

एस. रंगराजन, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मार्च 2013

सं. ए-19011/2/2011-(प्रशासन)--उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं सचिव, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय के पद पर अपने 02 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति पर सुश्री विजया लता रेड्डी, भारतीय विदेश सेवा (75), दिनांक 20 मार्च, 2013 के अपराह्न से अपने पद से कार्य मुक्त हो गई हैं।

आर. के. जैन, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 19 मार्च 2013

सं. ए-12011/10/2010-I--श्री के. एम. नायर ने अपने निवर्तन आयु प्राप्ति के परिणामस्वरूप मुख्य नियंत्रक, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी.एस.एस.सी.) के पद का कार्यभार जनवरी 31, 2013 से छोड़ दिया है।

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2013

सं. ए-32013/01/2013-प्रशा-I(वि.का.)--श्री गोपाल कृष्ण, भा.प्र.से. (प. बंगाल : 83), भूतपूर्व महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण की विधि और न्याय मंत्रालय में दिनांक 14 मई, 2013 तक के लिए संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 फरवरी, 2013 के पत्र संख्या 36/8/2013-ई.ओ. (एस.एम.-1) के तहत सूचित किए गए नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुसरण में, उन्होंने दिनांक 12 मार्च, 2013 के पूर्वाह्न से इस मंत्रालय में कार्यभार संभाल लिया है।

गणेश दत्त शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2013

सं. ए-32013/08/2011-प्रशा.-1--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 5/11/2011-सी.एस. I (यू) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस.एस.) संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारी तथा वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर ऋण वसूली अधिकरण ग्रेड-I, चेन्नई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत को वर्ष 2010 की चयन सूची में उनके नाम को शामिल करने के उपरान्त 1 जुलाई, 2010 से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-I में नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है:--

सी.एस.एस. सं.	नाम	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26.11.2012 के का.ज्ञा. सं. 5/11/2011-सी.एस. I (यू) के अनुसार सी.एस.एस. के ग्रेड-I में दी गई वरिष्ठता (अनुलग्नक-II)
6581	जी. पनीर सेलवम	36

2. वर्ष 2010 की चयन सूची में शामिल अधिकारी की अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति "पी. एस. भंडारी तथा अन्य बनाम भारत संघ और अन्य" विषयक ओ.ए. सं. 611/2012, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी.ए.टी.), पी.बी., नई दिल्ली के दिनांक 24.02.2012 के अंतरिम आदेश तथा अन्य किसी संबंधित मामले में किसी सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

सुरजीत घोष, अवर सचिव

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 मार्च 2013

सं. 13011/2/2011-रा.भा.(नीति/के.अनु.ब्यूरो)--राष्ट्रपति, दिनांक 26 सितम्बर, 2012 की अधिसूचना सं. 13011/2/2011-रा.भा.(के.अनु.ब्यूरो) के अनुक्रम में डॉ. श्रीनारायण सिंह, संयुक्त निदेशक, अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्र, बेंगलूरु की केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली में निदेशक के पद पर, तदर्थ आधार पर पदोन्नति को दिनांक 23.03.2013 के उपरान्त तथा 24.03.2013 से आगे छः माह यथा 23.02.2013 तक या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, तक सहर्ष बढ़ाते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और अधिकारी को अनिश्चितकाल तक पद पर बने रहने अथवा उक्त ग्रेड में वरीयता निर्धारण या उच्च पद पर पदोन्नति, आदि के मामले में किसी भी तरह का कोई भी हक प्रदान नहीं करेगी।

आर. एस. कौशिक, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2013

सं. 14015/07/2012-अ.भा.से. (I)-क--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के

साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त विनियमावलियों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत हरियाणा संवर्ग के भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति कोट की रिक्तियों को भरने के लिए विनियम 5(5) के अंतर्गत 16 अक्टूबर, 2012 को तैयार की गई तथा विनियम 7(2) के तहत 07.03.2013 को अनुमोदित की गई निम्नलिखित नामों को समाविष्ट करने वाली हरियाणा राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की प्रवर सूची को अधिसूचित करते हैं:--

2010 की प्रवर सूची (01.01.2010 से 31.12.2010 के बीच उद्भूत रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्वश्री)	
1.	संजय जून	01.11.1966
2.	विवेक आत्रे	04.11.1966
3.	संजीव वर्मा	13.04.1967
4.	जगदीप सिंह	01.04.1963
5.	अनीता यादव	19.09.1966

2. उपर्युक्त चयन सूची निम्नलिखित न्यायालय मामलों के निर्णय के अध्वधीन हैं:--

- सुरिन्द्र पाल सिंह द्वारा भारत संघ एवं अन्य के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के समक्ष दायर सीडब्ल्यूपी सं. 5982/2010।
- शमशेर सिंह दलाल द्वारा हरियाणा राज्य के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के समक्ष दायर सीडब्ल्यूपी सं. 20996/2010।
- मोनिका मलिक द्वारा हरियाणा राज्य के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के समक्ष दायर सीडब्ल्यूपी सं. 22211/2011।
- कुलवंत कुमार कल्सन द्वारा हरियाणा राज्य के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के समक्ष दायर सीडब्ल्यूपी सं. 21564/2012।
- वीरेन्द्र सिंह हुडा द्वारा हरियाणा राज्य के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के समक्ष दायर सीडब्ल्यूपी सं. 20080/2012।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/07/2011-अ.भा.से.(I)-ख--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, वर्ष 2010 की प्रवर सूची के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उपर्युक्त

विनियमावलीयों के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए हरियाणा राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में अगले आदेशों तक परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत हरियाणा संवर्ग आवंटित करते हैं :--

2010 की प्रवर सूची (01.01.2010 से 31.12.2010 के बीच उद्भूत रिक्तियों के लिए)

क्र. सं.	नाम
	(सर्वश्री)
1.	संजय जून
2.	विवेक आत्रे
3.	संजीव वर्मा
4.	जगदीप सिंह
5.	अनीता यादव

2. उपर्युक्त चयन सूची निम्नलिखित न्यायालय मामलों के निर्णय के अधधीन हैं :--

- सुरिन्द्र पाल सिंह द्वारा भारत संघ एवं अन्य के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के समक्ष दायर सीडब्ल्यूपी सं. 5982/2010।
- शमशेर सिंह दलाल द्वारा हरियाणा राज्य के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के समक्ष दायर सीडब्ल्यूपी सं. 20996/2010।
- मोनिका मलिक द्वारा हरियाणा राज्य एवं अन्य के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के समक्ष दायर सीडब्ल्यूपी सं. 22211/2011।
- कुलवंत कुमार कल्सन द्वारा हरियाणा राज्य एवं अन्य के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के समक्ष दायर सीडब्ल्यूपी सं. 21564/2012।
- वीरेन्द्र सिंह हुडा द्वारा हरियाणा राज्य एवं अन्य के विरुद्ध माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ के समक्ष दायर सीडब्ल्यूपी सं. 20080/2012।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/46/2012-अ.भा.से. (I)-क--ओ.ए. सं. 1110/2011, 1182/2011 तथा 1426/2011 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रधान शाखा के दिनांक 03.11.2011 के सामान्य आदेश के अनुसरण में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सिविल सेवा श्रेणी के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा कर्नाटक संवर्ग में पदोन्नति कोटा रिक्तियों को भरने के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा विनियम

5(5) के तहत चयन समिति की दिनांक 25.10.2012 की सिफारिशों के अनुसार, जिन्हें विनियम 7(2) के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 22.02.2013 को अनुमोदित किया गया था, चयन सूची 2008 को निम्नानुसार संशोधित करते हैं :--

नाम	जन्म तिथि	चयन सूची में क्रम
(सर्वश्री)		
जी. एस. शिवास्वामी	22.10.1953	निम्न क्रम सं. 2ए पर श्री एस. एस. पट्टनशेट्टी का नाम (क्रम सं. 2) तथा उपर्युक्त श्री एस. शंकरानारायण का नाम (क्रम सं. 3)
के. आर. रामकृष्णा	26.11.1953	निम्न क्रम सं. 3ए पर श्री एस. शंकरानारायण का नाम (क्रम सं. 3) तथा उपर्युक्त श्री बी. एन. कृष्णाह का नाम (क्रम सं. 4)

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

सं. 14015/46/2012-अ.भा.से. (I)-ख--ओ.ए. सं. 1110/2011, 1182/2011 तथा 1426/2011 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट), प्रधान शाखा के दिनांक 03.11.2011 के सामान्य आदेश के अनुसरण में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9(1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, प्रवर सूची वर्ष 2008 के लिए राज्य सरकार के परामर्श से उक्त विनियमावली के विनियम 5(1) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों के लिए कर्नाटक के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को परिवीक्षा पर अगले आदेशों तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1954 के नियम 5(1) के अन्तर्गत उन्हें कर्नाटक संवर्ग आवंटित करते हैं :--

नाम	चयन सूची में क्रम
(सर्वश्री)	
जी. एस. शिवास्वामी	निम्न क्रम सं. 2ए पर श्री एस. एस. पट्टनशेट्टी का नाम (क्रम सं. 2) तथा उपर्युक्त श्री एस. शंकरानारायण का नाम (क्रम सं. 3)
के. आर. रामकृष्णा	निम्न क्रम सं. 3ए पर श्री एस. शंकरानारायण का नाम (क्रम सं. 3) तथा उपर्युक्त श्री बी. एन. कृष्णाह का नाम (क्रम सं. 4)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति इस अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगी।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मार्च 2013

सं. 16 (फा. सं. ए.50/150/2008-प्रशा.-1) भारत के राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के वित्त संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की 30.06.2013 तक की अवधि के लिए अथवा निश्चित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक इनमें से जो भी पहले हो, राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के रूप में की गयी तदर्थ नियुक्ति को आगे बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	नाम
1	2
(सर्वश्री)	
1.	श्रीमती मंजुला शारदा
2.	एस. सी. शर्मा
3.	एन. सी. इसरानी
4.	श्रीमती जसबीर कौर
5.	श्रीमती सरिता शर्मा
6.	जयपाल सिंह
7.	श्रीमती धनवंती सहगल
8.	जी. एन. शर्मा
9.	श्रीमती अनुराधा शर्मा
10.	श्रीमती कमला जौहल
11.	अरविन्दो कुमार बरौनिया
12.	दलीप सिंह
13.	श्रीमती गीता चन्द्रा
14.	जॉर्ज दीपक टोप्पो
15.	श्रीमती नीलम कौशिक
16.	ओम प्रकाश कुमार
17.	श्रीमती पिकी पांडे
18.	प्रवीण कुमार पांडे
19.	राकेश आनन्द
20.	श्रीमती रीट्य मलिक
21.	श्रीमती वसन्ता कुमारी नायर
22.	विशाल कुमार
23.	विरेन्द्र पाल
24.	ए. के. शर्मा
25.	नागेन्द्र प्रसाद पन्त
26.	राम किशन

1	2
27.	श्रीमती संतोष अरोड़ा
28.	एन. के. सिन्हा
29.	मानवेन्द्र प्रताप
30.	श्रीमती बिमला शर्मा
31.	सी. एम. कोच्चर
32.	संजय रावत
33.	रणधीर कुमार
34.	श्रीमती आशा गुप्ता
35.	अभिजीत प्रसाद
36.	टी. आर. जी. पराते
37.	टी. बेक
38.	अमित सहाय
39.	रवि निर्मल
40.	जुलियस चोरंथ
41.	श्रीमती अनुग्रहित टोप्पो
42.	आर. वी. करकेट
43.	आशुतोष कुमार

2. यह तदर्थ नियुक्ति व्यक्तियों को ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

राजेन्द्र कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2013

सं. 3/2013-ई.एस. (फा. सं. ए.-12026/6/2011-एसओ (ईएस सेल)--भारत के राष्ट्रपति, श्री हरगोपाल गोयल को सामान्य प्रतिनियुक्ति शर्तों पर दिनांक 28 जनवरी, 2013 के पूर्वाह्न से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

विप्लव कुमार नस्कर, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2013

सं. ए.12011/1/2012/प्रशा.ए--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में सहायता लेखा और लेखा परीक्षा में कार्यरत लेखा अधिकारी श्री आर. के. शर्मा को पीबी-3, रुपए 15,600--39,100/- + 6,600/-

ग्रेड वेतन में 25.02.2013 से इसी विभाग में उप नियंत्रक, सहायता लेखा और लेखा परीक्षा के पद पर नियुक्त करते हैं।

ईप्सिता मित्रा, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. ए-19012/6/2008-डीआरटी--बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री के. जे. परतवार, पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण-II, मुम्बई को दिनांक 31.01.2013 से 19.02.2013 तक, अपने कार्यभार के अतिरिक्त, ऋण वसूली अधिकरण-III, मुम्बई के कार्यों का भी निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 मार्च 2013

सं. 11(1)/2011-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18 जनवरी, 2013 के आदेश संख्या-5/8/2012-सी.एस.1(यू) भाग-1) के द्वारा श्रीमती मीरा के. रामन, अवर सचिव (सीएसएल : 5447) को रोटेशनल ट्रांसफर पॉलिसी के तहत इस्पात मंत्रालय में सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के रूप में दिनांक 4 मार्च, 2013 (पूर्वाह्न) से नियुक्त किया जाता है।

एच. के. वधवा, अवर सचिव

सं. 2(5)/2012-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 फरवरी, 2013 के कार्यालय आदेश संख्या-17/2/2013-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में, श्री लोकेश चन्द्र भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमएच : 93) को 4 मार्च, 2013 के अपराह्न से 19.11.2014 (अर्थात् 7 वर्ष का मिश्रित कार्यकाल पूरा करेंगे) तक की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

एच. के. वधवा, अवर सचिव

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली-110049, दिनांक 11 मार्च 2013

सं. ए-22020/1/2011-स्था.1--राष्ट्रपति ने श्री संतोष डी. वैध भारतीय प्रशासनिक सेवा (एजीएमयूटी : 1988), को निदेशक के स्तर पर (पीबी-4 : 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/- की वेतन संरचना में) दिनांक 06.03.2013 (अपराह्न) से माननीय मंत्री (कृषि एवं एफ पी आई (श्री शरद पवार) के निजी सचिव के तौर पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में मंत्री जी के साथ सह-समाप्ति आधार पर अथवा जब तक मंत्री के निजी सचिव के तौर पर कार्य बंद न कर दें अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, नियुक्त किया है।

संजय बाजपेई, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. 17013/13/2012-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (पदोन्नति) नियम, 1966 के नियम 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य वन सेवा के निम्नलिखित 28 (अट्ठाईस) अधिकारियों को वर्ष 2007-ए से 2011 के लिए चयन सूची में शामिल उनके नामों के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का राजस्थान संवर्ग आवंटित करते हैं :--

2007-ए की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1	2	3

(सर्वश्री)

1.	बी. आ. भदू	16.07.1959
----	------------	------------

2008-की चयन सूची

1.	घनश्याम प्रसाद शर्मा	08.09.1960
2.	अक्षय सिंह	07.08.1959

2009-की चयन सूची

1.	वाई. के. साहू	20.09.1959
2.	अनिल कुमार कपूर	25.09.1959
3.	दया राम सहारन	07.09.1956
4.	राहुल कुमार भटनागर	01.07.1959
5.	इन्द्रपाल सिंह	02.04.1959
6.	मनीराम पूनिया	12.12.1957
7.	आर. पी. गुप्ता	15.07.1959
8.	दया सिंह दुल्लर	08.07.1960
9.	उमा राम चौधरी	15.09.1961
10.	लक्ष्मन लाल (अनु. जा.)	01.06.1957
11.	लक्ष्मन लाल परमार (अनु. जा.)	15.05.1956
12.	बुद्धि प्रकाश पारीक	07.07.1957
13.	राज कुमार सिंह	09.01.1964
14.	राजेश कुमार जैन	31.08.1961
15.	महेन्द्र कुमार अग्रवाल	04.08.1960
16.	मनोज पाराशर	15.07.1962

2010-की चयन सूची

1	2	3
(सर्वश्री)		
1.	दिग्विजय गुप्ता	30.09.1960
2.	के. आर. काला	22.05.1956
3.	पी. डी. गुप्ता	07.08.1958
4.	वेद प्रकाश गुर्जर	14.07.1961

2011-की चयन सूची

1.	रूप नारायण मीना (अनु. ज. जा.)	01.06.1973
2.	ललित सिंह रानावत	01.07.1958
3.	अमर सिंह गोथवाल (अनु. जा.)	01.07.1963
4.	पोकर मल सेवदा	02.03.1958
5.	ओम प्रकाश शर्मा	15.09.1959

सी. एस. ठाकुर, अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2013

सं. ए-38016/02/2012-स्था.-III--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यरत श्री ओम प्रकाश दहिया, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी दिनांक 28.02.2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. ए-32011/5/2012-ई.-1--राष्ट्रपति, श्री एस. रामाकृष्णम राजू (गैर सरकारी कर्मचारी) को 15.02.2013 (पूर्वाह्न) से मंत्री के वर्तमान कार्यकाल के साथ सहसमाप्य आधार पर अथवा मंत्री के प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर कार्य करना बंद करने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. एम. एम. पल्लम राजू) के प्रथम वैयक्तिक सहायक (वेतन बैंड-2 + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

सं. ए-32011/5/2012-ई.-1--राष्ट्रपति, श्री पी. श्रीमन्नारायण (गैर सरकारी कर्मचारी) को 14.02.2013 (पूर्वाह्न) से मंत्री के वर्तमान कार्यकाल के साथ सहसमाप्य आधार पर अथवा मंत्री के प्रथम वैयक्तिक सहायक के पद पर कार्य करना बंद करने तक अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. एम.

एम. पल्लम राजू) के प्रथम वैयक्तिक सहायक (वेतन बैंड-2 + ग्रेड वेतन 4,800/- रुपए) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

सं. ए-19011/15/2012-स्था.--सुश्री सुनीता को केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर 31.05.2013 तक या जब तक नियमित आधार पर पद नहीं भरे जाते हैं या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले लागू होता हो, प्रोन्नत किए जाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस.-I (यू) के माध्यम से उनकी तैनाती संस्कृति मंत्रालय में किए जाने के परिणामस्वरूप सुश्री सुनीता को संस्कृति मंत्रालय में सीएसएस की अवर सचिव के रूप में दिनांक 26 नवम्बर, 2012 की पूर्वाह्न से नियुक्त किया गया है।

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2012

सं. ए-19011/13/2012-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय) के दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 के आदेश सं. 4/16/2012-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में सुश्री शुभा शर्मा, आईएस (ओडिशा : 1999), उप सचिव, वाणिज्य विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) ने संस्कृति मंत्री (श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच) की निजी सचिव के रूप में, उप सचिव स्तर पर दिनांक 05 दिसम्बर, 2012 की पूर्वाह्न से सह-टर्मिनस आधार पर कार्यभार संभाल लिया है। वे, अपनी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के 04 वर्षों के बचे हुए समय अर्थात् 25.04.2014 तक या जब उनका निजी सचिव के रूप में कार्यकाल समाप्त होता है या अगले आदेशों के होने तक, में जो भी पहले घटित होता है, की अवधि तक संस्कृति मंत्री की निजी सचिव के रूप में कार्य करेंगी।

संजय कुमार, अवर सचिव

दिनांक 3 जनवरी 2013

सं. ए-19011/16/2012-स्था.--श्री अभय नंदन मिश्र को केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) में तदर्थ आधार पर 31.05.2013 तक या जब तक नियमित आधार पर पद नहीं भरे जाते हैं या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले लागू होता हो, प्रोन्नत किए जाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के आदेश सं. 5/9/2012-सी.एस.-I (यू) के माध्यम से उनकी तैनाती संस्कृति मंत्रालय में किए जाने के परिणामस्वरूप श्री अभय नंदन मिश्र को संस्कृति मंत्रालय में सीएसएस के अवर सचिव के रूप में दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 की पूर्वाह्न से नियुक्त किया गया है।

संजय कुमार, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. ए-32013/1/2009-स्था.-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 5/11/2011-सीएस-1 (यू) दिनांक 26 नवम्बर 2012 के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित छह: (6) तदर्थ अवर सचिवों को इस मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में नियमित आधार पर सीएसएस की ग्रेड-I की चयन सूची के लिए अर्थात् वर्ष 2009 और 2010 के लिए अवर सचिव ग्रेड में संबंधित अधिकारी के नाम के सामने दर्शाए गए वर्ष से नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सीएसएल नं.	चयन सूची वर्ष
	(सर्वश्री/श्री)			
1.	संजय मित्तल	अवर सचिव	6161	2009
2.	जे. के. साहू	अवर सचिव	6178	2009
3.	ए. पी. सिंह	अवर सचिव	6470	2009
4.	औजेन्द्र सिंह	अवर सचिव	6536	2010
5.	दयानिधि जोशी	अवर सचिव	6685	2010
6.	प्रदीप पुरोहित	अवर सचिव	6815	2010

2. अवर सचिव ग्रेड में उपर्युक्त अधिकारियों की नियमित नियुक्ति केन्द्रीय प्रशासनिक अभिकरण, पी. बी., नई दिल्ली के दिनांक 24.02.2012 के अंतरिम आदेश के संदर्भ में "पी. एस. भण्डारी तथा अन्य बनाम भारत संघ व अन्य शीर्षक की ओए सं. 611/2012 में अंतिम निर्णय तथा अन्य किसी प्रासंगिक मामले में किसी सक्षम न्यायालय के किसी अन्य आदेश के अधीन होगी।

वीरेन्द्र कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. ए-19011/02/2008-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री पदम लाल नेगी, आईडीएस (92), निदेशक की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से उनकी सेवाएं दिनांक 02.03.2013 अपराह्न से प्रत्यावर्तित करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, श्री नेगी को दिनांक 04.03.2013 से 28.03.2013 तक 25 दिन की अवधि के लिए अर्जित अवकाश 03.03.2013 (रविवार) को पूर्व में जोड़कर और 29.03.2013 (अवकाश) एवं 30-31 मार्च, 2013 (शनिवार एवं रविवार) को अन्त में जोड़कर स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त अवकाश के समाप्त होने पर, श्री नेगी की सेवाएं, उनके मूल संवर्ग अर्थात् रक्षा लेखा महानियंत्रक के अधीन होगी।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

दिनांक 14 मार्च 2013

सं. ए-19011/03/2008-स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री चैतन्य मूर्ति, आईएफएस (एमटी : 95), निदेशक की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल

पूरा होने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से उनकी सेवाएं दिनांक 17.03.2013 अपराह्न से प्रत्यावर्तित करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, श्री मूर्ति को दिनांक 18.03.2013 से 18.04.2013 तक 32 दिन की अवधि के लिए अर्जित अवकाश 16.03.2013 एवं 17.03.2013 (शनिवार एवं रविवार) को पूर्व में जोड़कर और 19.04.2013 (अवकाश) एवं 20-21 अप्रैल, 2013 (शनिवार एवं रविवार) को अन्त में जोड़कर स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त अवकाश के समाप्त होने पर, श्री मूर्ति की सेवाएं, उनके मूल संवर्ग अर्थात् त्रिपुरा राज्य सरकार के अधीन होगी।

दयानिधि जोशी, अवर सचिव

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 मार्च 2013

सं. 9-19/2008-एमसी--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06 मार्च, 2013 के का.ज्ञा. सं. 4/41/2012-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में, श्री वाई. पी. सिंह, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को छह महीने की अवधि के लिए दिनांक 10.12.2012 से 09.06.2013 तक अथवा नये पदधारी द्वारा उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उनके स्वयं के प्रभार के अतिरिक्त अल्प संख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) के प्रबंध निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपते हैं।

मैत्रेयी राय, उप सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2013

सं. ई. (जी.पी) 2009/3/4--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 145 ग्रुप-बी अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 31.12.2012 से भारतीय रेल यांत्रिक इंजीनियरी सेवा (आई. आर. एस. एम. ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं।

2010-11 के लिए पैनाल

क्र. सं.	नाम	रेलवे
1	2	3
1.	एस. सत्यानारायना रेड्डी	द.म.रे.
2.	जे. के. पाल	पू.रे.
3.	तमाल चौधुरी	पू.रे.
4.	सी. एम. दीक्षित	उ.पू.रे.
5.	गजेन्द्र मिश्रा	उ.पू.रे.
6.	पी. ए. रहमान	अ.अ.मा.सं.

1	2	3
7.	एस. के. मिश्रा	अ.अ.मा.सं.
8.	डी. राजामणी	द.रे.
9.	के. वी. सुन्दरेसन	द.रे.
10.	राज बाली	उ.पू.रे.
11.	अशोक कुमार	उ.पू.रे.
12.	मोह. जावेद	उ.पू.रे.
13.	डी. के. तिवारी	उ.पू.रे.
14.	एन. सी. डे सरकार	पू.रे.
15.	एस. ए. एच. रिजवी	उ.रे.
16.	ए. बी. पॉल	पू.रे.
17.	ए. क्यू. खान	पू.रे.
18.	जे. पी. मण्डल-II	पू.रे.
19.	बलबीर सिंह	उ.प.रे.
20.	एस. राजेन्द्रन	स.डि.का.
21.	जगदीश प्रसाद शर्मा	उ.प.रे.
22.	के. एस. श्रीधरन	स.डि.का.
23.	संतोष कुमार सिंह	डी.रे.का.
24.	मनोज कुमार	डी.रे.का.
25.	मुकेश ओझा	डी.रे.का.
26.	ए. के. सिंह	प.रे.
27.	ए. चन्द्रप्पा	रे.प.का.
28.	के. सी. घोष	द.पू.रे.
29.	बी. प्रसाद	द.पू.रे.
30.	ए. के. जायसवाल	द.पू.रे.
31.	पी. के. डे	द.पू.रे.
32.	एस. पाझानीचामी	रे.प.का.
33.	योगीन्द्र कुमार	उ.रे.
34.	राकेश कुमार	उ.रे.
35.	अरविंद कुमार	उ.रे.
36.	एस. के. बब्बर	उ.रे.
37.	यू. करुणाकुमार	स.डि.का.
38.	वी. के. चट्टा	उ.रे.
39.	एस. के. गम्भीर	उ.रे.
40.	संजय कुमार	उ.रे.

1	2	3
41.	गुरजीत सिंह	रे.डि.का.
42.	वर्गीस जोसुआ	स.डि.का.
43.	के. के. मल्होत्रा	डी.रे.का.
44.	बी. एल. नाग	डी.रे.का.
45.	शम्मी नायर	डी.रे.का.
46.	राकेश सिन्हा	डी.रे.का.
47.	आर. के. श्रीवास्तव	डी.रे.का.
48.	वी. के. श्रीवास्तव	उ.म.रे.
49.	राजेन्द्र जोशी	प.रे.
50.	आर. बी. विजयवर्गीय	प.रे.
51.	एम. श्रीनिवास	प.रे.
52.	के. एल. सैनी	प.रे.
53.	गोविन्द सहाय	प.रे.
54.	एम. एम. जी. डब्ल्यू. बेग	उ.पू.रे.
55.	मंजीत सिंह	अ.अ.मा.सं.
56.	पी. के. श्रीवास्तव	अ.अ.मा.सं.
57.	आर. डेविड मुथुराज	स.डि.का.
58.	जी. वेंकटाचलपति	द.रे.
59.	बलजीत सिंह (अ.जा.)	रे.डि.का. अ.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
60.	एस. के. प्रसाद (अ.जा.)	पू.रे. अ.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
61.	आशीष कुमार साहा (अ.जा.)	पू.रे. अ.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
62.	मुख्तियार सिंह (अ.जा.)	डी.सी.डब्ल्यू. अ.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
63.	भारत भूषण (अ.जा.)	चि.रे.का. अ.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
64.	रणजीत कुमार मण्डल (अ.जा.)	पूर्वो सी.रे. अ.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
65.	वेद प्रकाश (अ.जा.)	पू.म.रे. अ.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
66.	डी. संजीवा राव (अ.जा.)	द.म.रे. अ.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
67.	एस. सी. मीणा (अ.ज.जा.)	अ.अ.मा.सं. अ.ज.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
68.	आर. एस. बीका (अ.जा.)	रे.डि.का. अ.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
69.	मदन मरांडी (अ.ज.जा.)	चि.रे.का. अ.ज.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत
70.	यू. राजेन्द्रन	स.डि.का.
71.	के. बाबू राव (अ.जा.)	द.म.रे. अ.जा. के. आरक्षित पद पर पदोन्नत

2011-12 के लिए पैनल

1.	तेजिन्द्र सिंह	रे.डि.का.
2.	के. कृष्णराज	द.प.रे.
3.	इंदरिश अली	उ.पू.रे.

1	2	3
4.	मेहताब सिंह	रे.डि.का.
5.	चमकौर सिंह	रे.डि.का.
6.	ए. के. वर्मा	रे.डि.का.
7.	सुखजिन्दर सिंह	रे.डि.का.
8.	प्रदीप शर्मा	रे.डि.का.
9.	एस. आई. अली	रे.डि.का.
10.	जोगिन्दर सिंह	रे.डि.का.
11.	अशित गुप्ता	पूर्वो.सी.रे.
12.	जे. पी. सिंह	पूर्वो.सी.रे.
13.	ए. के. सक्सेना	पूर्वो.सी.रे.
14.	बी. डी. सिंह	पूर्वो.सी.रे.
15.	एम. सी. धनकर	उ.प.रे.
16.	आर. के. मलिक	उ.रे.
17.	पी. के. माथुर	उ.म.रे.
18.	जी. डी. चौधरी	पू.रे.
19.	गोपाल पाठक	पू.रे.
20.	डी. आर. नाथ	पू.रे.
21.	श्रीराम सिंह	पू.रे.
22.	डी. के. सरकार	अ.अ.मा.सं.
23.	मोह. इलियास	द.प.रे.
24.	पी. रामचन्द्रन	म.रे.
25.	के. श्रीनिवास	द.पू.रे.
26.	अतुल कुमार भारद्वाज	डी.सी.डब्ल्यू.
27.	यू. सी. श्रीवास्तव	डी.सी.डब्ल्यू.
28.	परमवीर सिंह	डी.सी.डब्ल्यू.
29.	के. के. शर्मा	चि.रे.का.
30.	बी. चक्रबोर्ती	चि.रे.का.
31.	ए. के. त्रिपाठी	चि.रे.का.
32.	एम. सार	चि.रे.का.
33.	जगत बाबू	चि.रे.का.
34.	जी. सी. मुखर्जी	चि.रे.का.
35.	एम. बालाकृष्णन	द.रे.
36.	पी. एम. पॉउलोस	द.रे.
37.	एस. ससिंदरन	द.रे.
38.	अशोक सिन्हा	पू.रे.
39.	बी. चन्द्रशेखरन	स.डि.का.

1	2	3
40.	उत्पल सरमा	पूर्वो.सी.रे.
41.	सुब्रता भौमिक	पूर्वो.सी.रे.
42.	सुप्रिय बोस	पू.रे.
43.	पी. एस. यादव	पू.म.रे.
44.	आर. एन. सिंह	पू.म.रे.
45.	सुनिल के. राय	पू.म.रे.
46.	एम. सिद्दीकी	पू.म.रे.
47.	के. के. सिंह	पू.म.रे.
48.	सी. के. गणेशन	द.म.रे.
49.	एम. ए. रफीक	द.म.रे.
50.	अरविन्द कुमार	द.म.रे.
51.	आबिद पाशा	द.म.रे.
52.	के. डी. शर्मा	पू.म.रे.
53.	ओ. पी. चौबे	अ.अ.मा.सं.
54.	भूषण कुमार गोयल	रे.डि.का.
55.	बलदेव राज	रे.डि.का.
56.	शिव कुमार	रे.डि.का.
57.	महाराम (अ.जा.)	उ.पू.रे. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
58.	वी. वेनुगोपाल (अ.जा.)	स.डि.का. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
59.	आर. रविचन्द्रन (अ.जा.)	द.रे. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
60.	आर. परन्थामन (अ.जा.)	द.रे. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
61.	एल. एन. दहामा (अ.जा.)	प.रे. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
62.	मेष राज (अ.जा.)	उ.रे. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
63.	एम. मुरलीधर (अ.जा.)	रे.प.का. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
64.	पी. पी. हलदर (अ.जा.)	पू.रे. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
65.	एम. तरनीराजन (अ.जा.)	स.डि.का. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
66.	प्रेम सिंह (अ.जा.)	म.रे. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
67.	राम प्रताप (अ.जा.)	उ.प.रे. अ.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
68.	आर. एस. मण्डल (अ.ज.जा.)	द.पू.रे. अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
69.	डी. पैरूमल (अ.ज.जा.)	द.प.रे. अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत
70.	अशोक कुमार	डी.रे.का.
71.	ए. टी. वी. एस. सत्यानारायण	द.म.रे.
72.	वी. पी. वेंकटेश	रे.प.का.
73.	धनश्याम सिंह	पू.म.रे.
74.	फरियाद आलम	पू.म.रे.

एच. के. जग्गी, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 6/395/07-प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय के श्री विजेंद्र पाल सिंह, अनुभाग अधिकारी दिनांक 28 फरवरी, 2013 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 15 मार्च 2013

सं. 6/399/06-प्रशा. I--राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री प्रेम चन्द ग्रेड-I अवर सचिव को मंत्रालय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 07 मार्च, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2013-सीएस-I (डी) में निर्धारित शर्तों के अनुसार धारित पद अर्थात् अवर सचिव के वैयक्तिक उन्नयन पर चयन ग्रेड (उप-सचिव) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिनांक 07.03.2013 से उनकी दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत्ति होने तक नियुक्त किया जाता है।

सुरेश कुमार, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 18 फरवरी 2013

सं. 83/2013 (फा. सं. ए-22012/6/2012-प्रशासन II)--राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के ग्रेड-I अधिकारी (अवर सचिव) श्री पी. एल. वर्मा की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.01.2013 के आदेश सं. 4/2/2013-सीएस. I (डी) के तहत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर ग्रेड (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह्न) से 7,600/- रु. के ग्रेड पे के साथ पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रु. में इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवर ग्रेड (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं। उन्हें उसी तारीख अर्थात् 01.02.2013 (पूर्वाह्न) से उप सचिव के रूप में मुख्य सचिवालय के कर्मचारी संख्या बल में शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, उनकी तदर्थ पदोन्नति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त आदेश में दी गई शर्तों के अधीन है।

2. उप सचिव के पद पर श्री पी. एल. वर्मा की पदोन्नति के परिणामस्वरूप, उन्हें दिनांक 19.02.2013 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक मुख्य सचिवालय में उप सचिव [बी (डी) एवं बी (वित्त)] के रूप में कार्यभार सौंपा जाता है।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

दिनांक 19 फरवरी 2013

सं. 89/2013 फा. सं. 6/2/2007-प्रशा. II--राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, भा. प्र. से. (मध्य

प्रदेश : 82) को दिनांक 18.02.2013 (पूर्वाह्न) अर्थात् अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव एवं वित्त सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

सं. 90/2013 फा. सं. 6/2/2007-प्रशा. II--राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव एवं वित्त सलाहकार श्री चिररावुरी विश्वनाथ, भा. प्र. से. (आंध्र प्रदेश : 81) को दिनांक 18.02.2013 (पूर्वाह्न) अर्थात् अपर सचिव के पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. एस. बेदी, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 मार्च 2013

सं. ए-22012/4/2013 प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री मृणाल कांत त्रिपाठी, इण्डियन आर्किटेक्चर फैक्ट्री सर्विस (1998) को शहरी विकास मंत्रालय में रु. 15,600--39,100/- पे बैंड-3 वेतनमान रु. 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन में दिनांक 07.03.2013 (पूर्वाह्न से) 04 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव, (प्रशा.)

दिनांक 14 मार्च 2013

सं. ए-22011/7/2012 प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री आर. एस. मीना (सी. एस. एल. सं. 1998) को शहरी विकास मंत्रालय में 14.01.2012 (पूर्वाह्न) से वेतन बैंड-4, 37,400--67,000/- रु. + 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन के वेतनमान में संयुक्त सचिव (स्व-स्थाने) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव, (प्रशा.)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2013

फा. सं. ए-11019/01/2009-प्रशा. I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री बाबू लाल मीणा (सीएसएल सं. 5520 को दिनांक 13.03.2013 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक इस संवर्ग के चयन ग्रेड में (उप सचिव के पद पर) पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

पवन कुमार, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 1st May 2012

No. A.36011/13/11-Adm.—The President is pleased to appoint Ms. Tingneilhing Kipgen D/o Shri Sehkal Kipgen as Private Secretary in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 1st May, 2012.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 3rd July 2012

No. A.36011/10/11-Adm.—The President is pleased to re-designate the post of Deputy Secretary in the President's Secretariat, presently held by Shri Saurabh Vijay, IAS (MH : 98), as Director in the President's Secretariat w.e.f. 01.07.2012, as a measure personal to him.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 24th July 2012

No. A.35011/6/2011-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Nakku Ram Yadav as Superintendent, President's Gardens, President's Secretariat with effect from the forenoon of 24th July, 2012.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 25th July 2012

No. A.36011/18/11-Adm.—The President is pleased to appoint Smt. Omitha Paul, IIS (73) (Retired), as Secretary to the President, with effect from the forenoon of 25th July, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 30th July 2012

No. A.36011/26/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Pradyut Guha as Additional Private Secretary to the President, with effect from the forenoon of 30th July, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

No. A.36011/28/11-Adm.—The President is pleased to appoint Dr. Mohsin Wali, Consultant (Medicine), CGHS, Delhi, as Physician to the President, with effect from the forenoon of 30th July, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

No. A.36011/27/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Mrinal Kanti Mookerjee as Additional Private

Secretary, President's Secretariat with effect from the forenoon of 30th July, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 31st July 2012

No. A.36011/21/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Rajneesh, IAS (HP : 1997) as Private Secretary to the President, at Director Level with effect from the forenoon of 25th July, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

No. A.36011/19/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Pradeep Gupta, IOFS (1986) as Private Secretary to the President, at Director Level with effect from the forenoon of 25th July, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

No. A.36011/20/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Suresh Yadav, IRS (IT : 1994) as OSD to the President, at Director Level with effect from the forenoon of 25th July, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 1st August 2012

No. A.39011/7/11-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Ramesh Kumar Vidhani S/o Late Shri Ram Chand, Section Officer, President's Secretariat, retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st July, 2012.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

No. A.36011/29/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Siddharth Sharma, ICAS (1996) as Internal Financial Adviser at Director Level in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 1st August, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 2nd August 2012

No. A.36011/32/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Venu Rajamony, IFS (1986) as Press Secretary to the President with effect from the forenoon of 1st August, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 3rd August 2012

No. A.36011/25/11-Adm.—The President is pleased to appoint Smt. Shamima Siddiqui, IIS (IRLA No. 14674), as Deputy Press Secretary to the President with effect from the forenoon of 3rd August, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 17th August 2012

No. A.36011/30/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Yogesh Sharma, as Principal Private Secretary in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 3rd August, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 29th August 2012

No. A.36011/38/11-Adm.—The President is pleased to appoint Smt. Gaitri Issar Kumar, IFS (1986) as Joint Secretary-cum-Social Secretary to the President with effect from the afternoon of 29th August, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 4th September 2012

No. A.36011/46/11-Adm.—The President is pleased to appoint Dr. Thomas Mathew, IAS (KL : 83) as Joint Secretary to the President with effect from the forenoon of 3rd September, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 12th September 2012

No. A.27011/14/11-Adm.—Smt. Gaitri Issar Kumar, Joint Secretary-cum-Social Secretary to the President is hereby designated as an Officer under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, to hear appeals from persons seeking information under the said Act who do not receive a decision within the time specified in sub-clause (1) or clause (a) of sub-section (3) of Section 7, or are aggrieved by a decision of the Public Information Officers of this Secretariat, with effect from the 4th September, 2012 *vice* Smt. Vijay Thakur Singh, Joint Secretary-cum-Social Secretary to the President and an Appellate Authority under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005, relieved from this Secretariat to join her parent department i.e. Ministry of External Affairs, Govt.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 1st November 2012

No. A.39011/12/11-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri P. K. Mathewkutty, Principal Private

Secretary, President's Secretariat, retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st October, 2012.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 15th November 2012

No. A.36011/52/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Shakil Alam, IES (2001) as Officer on Special Duty (Reference & Research), President's Secretariat with effect from the forenoon of 15th November 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 19th November 2012

No. A.34011/4/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Kavinder Devgan, Assistant as Section Officer in the President's Secretariat on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 16th November 2012.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

No. A.34011/4/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Bhamra, Assistant as Section Officer in the President's Secretariat on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 16th November 2012.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

No. A.34011/4/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Rajput, Section Officer as Under Secretary in the President's Secretariat on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 16th November 2012.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

No. A.34011/4/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Charanjit Singh, Assistant as Section Officer in the President's Secretariat on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 16th November 2012.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

No. A.34011/4/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri John Basil, Section Officer as Under Secretary in the President's Secretariat on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 16th November 2012.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

No. A.34011/4/11-Adm.—The President is pleased to appoint Smt. Kiran Bala, Private Secretary, as Principal Private Secretary, President's Secretariat with effect from the forenoon of 14th November 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 10th December 2012

No. A.36011/64/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Anupam Kumar Nag, as Private Secretary, President's Secretariat with effect from the forenoon of 06th December, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 12th December 2012

No. A.36011/66/11-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Gauhar Hussain, as Private Secretary, President's Secretariat with effect from the forenoon of 12th December, 2012, until further orders.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

The 1st February 2013

No. A.39011/22/11-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Yogender Kumar S/o Late Bipat Ram Pasi, Section Officer, President's Secretariat, retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st January, 2013.

J. G. SUBRAMANIAN, Under Secy. (Admn.)

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 18th March 2013

No. A-22012/1/2013-PME—Consequent upon his inclusion of his name in the Select List for the year 2010 of Under Secretary, the President is pleased to appoint Shri L. Madana Kumar Ramachandra of CSS as regular Under Secretary with effect from the forenoon of 26th November, 2012 in the Prime Minister's Office.

R. MYTHILI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 15th March 2013

No. RS.3/1(1)/2013/20-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following Legislative/Committee/Protocol/Executive Officers in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Assistant Director in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- plus usual allowances as admissible under the

rules, on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 24th February 2013 and until further orders.

(i) Shri R. K. Mecolt Singh

(ii) Shri Gian Chand

2. Shri R. K. Mecolt Singh and Shri Gian Chand would rank senior to Smt. Durupati Jetwani in the grade of Assistant Director.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

No. RS.3/1(1)/2012/21-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Senior Legislative/Committee/Protocol/Executive Assistant in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/-, plus usual allowances as admissible under the rules, on *in situ* basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 26th October 2012 and until further orders.

1. Shri Devashish Sen

2. Smt. Kumud Sharma

3. Smt. Kiran Bala Sukrawal

4. Shri Anil Kumar Bhatia

5. Shri Pratap Shenoy

6. Smt. Manjula Harit

7. Shri Ashish Desh Raj

8. Shri Madan Mohan

9. Shri Charanjit Singh

10. Shri Sanjay Kumar

11. Shri Rajesh Harit

12. Shri Rajender Kumar

13. Shri Ajin J. R.

14. Shri Deepak Bhorla

15. Shri Ashraf Karim

16. Shri Kuldip Singh

17. Shri P. P. Raumon

18. Smt. Girija Kamath

19. Smt. Madhu Mangla

20. Shri Sandeep Pandey

21. Smt. Satinder Kaur Gulati

2. The above appointments shall be governed by the provisions contained in the scheme of *in situ* promotion

notified vide R&CS Order No. 5/2009 dated 26th November 2009.

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

The 19th March 2013

No. RS.3/1(1)/2013/23-Perl.—The following persons, who were earlier appointed to the grade of Legislative/Committee/Protocol/Executive Officer in the Rajya Sabha Secretariat on in situ basis vide Notification No. RS.3/1/1/2009/105-Perl. dated 30th December 2009 and No. RS.3/1/1/2010/36-Perl. dated 4th May 2010, stand adjusted against regular vacancies in the said grade with effect from the forenoon of 19th March, 2013:—

- (i) Smt. Catherine John L.
- (ii) Shri Sanjeev Khokhar
- (iii) Shri Navneet Joon

S. RANGARAJAN, Jt. Dir.

NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 20th March 2013

No. A-19011/2/2011-Ad—On expiry of her two years tenure as Deputy National Security Adviser & Secretary, NSCS, Ms. Vijaya Latha Reddy, IFS (75) relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 20th March 2013.

R. K. JAIN, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 19th March 2013

No. A-12011/10/2010-I—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri K. M. Nair, has relinquished the post of Chief Controller, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) with effect from the afternoon of January 31, 2013.

N. PATTABI RAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 14th March, 2013

No. A-32013/01/2013-Admn.IV (LA)—In pursuance of the approval of the Appointments Committee of the Cabinet conveyed vide Ministry of Personnel, PG and Pensions, Department of Personnel and Training's communication No. 36/8/2013-EO (SM-I) dated 27th February, 2013 to his appointment as Joint Secretary in the Ministry of Law and Justice upto 14th May, 2013, Shri Gopal Krishna, IAS (WB : 83), formerly Director General, Sports Authority of India, has joined this Ministry with effect from the forenoon of 12th March, 2013.

GANESH DUTTA SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 15th March 2013

No. A-32013/08/2011-Ad.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/11/2011-CS.I(U), dated 26.11.2012, the following permanent Section Officer of CSS Cadre and presently on deputation with Debts Recovery Tribunal-I, Chennai working as Assistant Registrar is appointed to the Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary) on regular basis consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2010 with effect from 1st July 2010 :—

CSL No.	Name	Seniority assigned in Grade-I of CSS as per annexure to the DoP&T's OM No. 5/11/2011-CS.I (U), dated 26.11.2012 (Annexure. II)
---------	------	--

6581	G. Panneer Selvam	36
------	-------------------	----

2. The appointment of the above officer included in the Select List of 2010 to the grade of Under Secretary, on regular basis, shall be subject to the final outcome in OA No. 611/2012 titled "P. S. Bhandari & Ors. Vs. UOI & Ors." in terms of CAT, PB, New Delhi's interim order dated 24.02.2012, and any other order by any competent court of any of the connected matters.

SUROJIT GHOSH, Under Secy.

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

New Delhi, the 19th March 2013

No. 13011/2/2011-O. L.(Policy/CTB)—The President, in continuation of notification No. 13011/2/2011-O. L.(Policy/CTB) dated 25.09.2012 is pleased to extend promotion of Dr. Shrinarayan Singh, Joint Director, Translation Training Centre, Bangalore to the post of Director, Central Translation Bureau, New Delhi for six months i.e. upto 23.09.2013 on adhoc basis or till further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and will not confer any right on the officer to continue indefinitely or for seniority in the grade or for promotion to the higher grade etc.

R. S. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 20th March 2013

No. 14015/07/2011-AIS (I)-A—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of

the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to notify the Select List of State Civil Service officers of Haryana containing the following names prepared on 16th October 2012 under Regulation 5(5) and approved on 07.03.2013, under Regulation 7(2) towards filling up Promotion Quota Vacancies in Haryana cadre of IAS under State Civil Service category determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government:—

Select List of 2010 (Against vacancies arisen between 01.01.2010 to 31.12.2010)

Sl. No.	Name	Date of Birth
	(S/Shri)	
1.	Sanjay Joon	01.11.1966
2.	Vivek Atrey	04.11.1966
3.	Sanjeev Verma	13.04.1967
4.	Jagdeep Singh	01.04.1963
5.	Anita Yadav	19.09.1966

2. The above Select List is subject to the outcome of the following Court cases :—

- (i) CWP No. 5982/2010 filed by Surinder Pal Singh Vs. Union of India & others before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- (ii) CWP No. 20996/2010 filed by Shamsher Singh Dalal Vs. State of Haryana before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- (iii) CWP No. 22211/2011 filed by Monika Malik Vs. State of Haryana before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- (iv) CWP No. 21564/2012 filed by Kulwant Kumar Kalson Vs. State of Haryana & others before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- (v) CWP No. 20080/2012 filed by Virender Singh Hooda Vs. State of Haryana & others before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/07/2011-AIS (I)-B—In exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Haryana to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said

Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2010, on probation until further orders and to allocate them to the Haryana Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Select List of 2010 (Against vacancies arisen between 01.01.2010 to 31.12.2010)

Sl. No.	Name
	(S/Shri)
1.	Sanjay Joon
2.	Vivek Atrey
3.	Sanjeev Verma
4.	Jagdeep Singh
5.	Anita Yadav

2. The above appointments are subject to the outcome of the following Court cases :—

- (i) CWP No. 5982/2010 filed by Surinder Pal Singh Vs. Union of India & others before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- (ii) CWP No. 20996/2010 filed by Shamsher Singh Dalal Vs. State of Haryana before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- (iii) CWP No. 22211/2011 filed by Monika Malik Vs. State of Haryana & others before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- (iv) CWP No. 21564/2012 filed by Kulwant Kumar Kalson Vs. State of Haryana & others before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.
- (v) CWP No. 20080/2012 filed by Virender Singh Hooda Vs. State of Haryana & others before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/46/2012-AIS (I)-A—In pursuance to the common order dated 03.11.2011 of the Hon'ble CAT, Principal Bench in O. A. Nos. 1110/2011, 1182/2011 and 1426/2011 and, in exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to modify the select list of 2008 to the following extent as per the recommendations of the Selection Committee, dated 25.10.2012 under Regulation 5(5) which were approved by UPSC on 22.02.2013 under Regulation 7(2) towards filling up Promotion Quota Vacancies in Karnataka Cadre of IAS

under State Civil Service category, determined by the Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government, as indicated below:—

Name	Date of Birth	Position in the Select List
(S/Shri)		
G. S. Shivaswamy	22.10.1953	At S. No. 2A below the name of Shri S. S. Pattanashetty (S. No. 2) and above the name of Shri S. Shankaranarayana (S. No. 3)
K. R. Ramakrishna	26.11.1953	At S. No. 3A below the name of Shri S. Shankaranarayana (S. No. 3) and above the name of Shri B. N. Krishnaiah (S. No. 4)

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

No. 14015/46/2012-AIS (I)-B—In pursuance to the common order dated 03.11.2011 of the Hon'ble CAT, Principal Bench in O. A. Nos. 1110/2011, 1182/2011 and 1426/2011 and, in exercise of powers conferred by Rule 8(1) of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with Regulation 9(1) of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service of Karnataka to the Indian Administrative Service against the vacancies determined by Government of India under Regulation 5(1) of the said Regulations in consultation with the State Government for the Select List of 2008, on probation until further orders and to allocate them to the Karnataka Cadre, under Rule 5(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Name	Position in the Select List
(S/Shri)	
G. S. Shivaswamy	At S. No. 2A below the name of Shri S. S. Pattanashetty (S. No. 2) and above the name of Shri S. Shankaranarayana (S. No. 3)
K. R. Ramakrishna	At S. No. 3A below the name of Shri S. Shankaranarayana (S. No. 3) and above the name of Shri B. N. Krishnaiah (S. No. 4)

2. The appointment of the above officers above will take effect from the date of this notification.

NARENDRA GAUTAM, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 11th March 2013

No. 16 (F. No. A-50/150/2008-Ad.I)—The President is pleased to extend the ad-hoc appointment of the following Assistants of Finance cadre of CSS as Section Officers (Ad-hoc) in the Department of Revenue for the period upto 30.06.2013 or till the regular Section Officers are available, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name
1	2
	(S/Shri)
1.	Mrs. Manjula Sharda
2.	S. C. Sharma
3.	N. C. Israni
4.	Mrs. Jasbir Kaur
5.	Mrs. Sarita Sharma
6.	Jaipal Singh
7.	Mrs. Dhanwanti Sehgal
8.	G. N. Sharma
9.	Mrs. Anuradha Sharma
10.	Mrs. Kamla Johal
11.	Arbindo Kumar Baronia
12.	Dalip Singh
13.	Mrs. Geeta Chandra
14.	George Deepak Toppo
15.	Mrs. Neelam Kaushik
16.	Om Prakash Kumar
17.	Mrs. Pinki Pandey
18.	Pravin Kumar Pandey
19.	Rakesh Anand
20.	Mrs. Rita Malik
21.	Mrs. Vasantha Kumari Nair
22.	Vishal Kumar
23.	Virender Pal
24.	A. K. Sharma
25.	Nagendra Prasad Pant
26.	Ram Kishan
27.	Mrs. Santosh Arora
28.	N. K. Sinha
29.	Manavendra Pratap

1	2
	(S/Shri)
30.	Mrs. Bimla Sharma
31.	C. M. Kochhar
32.	Sanjay Rawat
33.	Randhir Kumar
34.	Mrs. Asha Gupta
35.	Abhijit Prasad
36.	T. R. G. Parate
37.	T. Beck
38.	Amit Sahai
39.	Ravi Nirmal
40.	Julius Choranth
41.	Mrs. Anugrahit Toppo
42.	R. V. Kerketta
43.	Ashutosh Kumar

2. The ad-hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers grade of CSS.

RAJINDER KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 21st March 2013

No. 3/2013-E.S. (F. No. A-12026/6/2011-SO (ES Cell)—The President of India is pleased to appoint Shri Hargopal Goel, as Administrative Officer in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) plus Grade Pay of Rs. 6,600/- in the Adjudicating Authority under the Prevention of Money Laundering Act, 2002, New Delhi on usual deputation terms with effect from the forenoon of 28th January, 2013 for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 19th March 2013

No. A-12011/1/2012-Ad.IA—The President is pleased to appoint Shri R. K. Sharma, Accounts Officer of Aid, Accounts & Audit in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance to the post of Dy. Controller of Aid, Accounts & Audit in the PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- Grade Pay on promotion basis in the same department w.e.f. 25.02.2013.

IPSITA MITRA, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 21st February 2013

No. A-19012/6/2008-DRT—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government, hereby authorizes Shri K. J. Paratwar, Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-II, Mumbai, to discharge the functions of Presiding Officer, Debts Recovery Tribunal-III, Mumbai with effect from 31.01.2013 to 19.02.2013, in addition to his own charge.

RAJIV SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 4th March 2013

No. 11(1)/2011-Estt.—Consequent to her transfer under Rational Transfer Policy of the DoP&T vide their Order No. 5/8/2012-CS.I (U) Pt. I dated 18th January, 2013, Smt. Meera K. Raman, Under Secretary (CSL 5447) is appointed to the Grade I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Steel w.e.f. the forenoon of March 04, 2013.

H. K. WADHWA, Under Secy.

No. 2(5)/2012-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's Order No. 17/2/2013-EO (SM-I) dated the 27th February, 2013, the President is pleased to appoint Shri Lokesh Chandra, IAS (MH : 93), as Joint Secretary in the Ministry of Steel w.e.f. the forenoon of 4th March, 2013 for the period upto 19.11.2014 (i.e. the date on which he will complete a combined tenure of 7 years) or until further orders, whichever is earlier.

H. K. WADHWA, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

New Delhi-110049, the 7th March 2013

No. A-22011/1/2011-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Santosh D. Vaidya, IAS (AGMUT : 1998), as Private Secretary to the Hon'ble Minister for Agriculture and Food Processing Industries (Shri Sharad Pawar) in the Ministry of Food Processing Industries at the level of Director (PB-4 : Rs. 37,400—67,000/- plus GP-Rs. 8,700/-) w.e.f. 06.03.2013 (A/N) on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

SANJAI BAJPAI, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 19th February 2013

No. 17013/13/2012-IFS.II—In exercise of the provisions conferred by Rule 8 of the Indian Forest Service (Promotion)

Rules, 1966, read with sub-regulations (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the following 28 (twenty eight) officers of the State Forest Service of Rajasthan to the Indian Forest Service on the basis of inclusion of their names in the Select List for the year 2007-A to 2011 and to allocate them to Rajasthan Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966:—

Select List-2007-A

Sl No.	Name	Date of Birth
1	2	3
	(S/Shri)	
1.	B. R. Bhadu	16.07.1959

Select List-2008

1.	Ghanshyam Prasad Sharma	08.09.1960
2.	Akshay Singh	07.08.1959

Select List-2009

1.	Y. K. Sahu	20.09.1959
2.	Anil Kumar Kapoor	25.09.1959
3.	Daya Ram Saharan	07.09.1956
4.	Rahul Kumar Bhatnagar	01.07.1959
5.	Indrapal Singh	02.04.1959
6.	Mani Ram Poonia	12.12.1957
7.	R. P. Gupta	15.07.1959
8.	Daya Singh Dullar	08.07.1960
9.	Uma Ram Chaudhry	15.09.1961
10.	Laxman Lal (SC)	01.06.1957
11.	Laxman Lal Parmar (SC)	15.05.1956
12.	Budhi Prakash Pareek	07.07.1957
13.	Raj Kumar Singh	09.01.1964
14.	Rajesh Kumar Jain	31.08.1961
15.	Mahendra Kumar Agrawal	04.08.1960
16.	Manoj Parashar	15.07.1962

Select List-2010

1	2	3
	(S/Shri)	
1.	Digvijay Gupta	30.09.1960
2.	K. R. Kala	22.05.1956
3.	P. D. Gupta	07.08.1958
4.	Ved Prakesh Gurjar	14.07.1961

Select List-2011

1.	Roop Narayan Meena (ST)	01.06.1973
2.	Lalit Singh Ranawat	01.07.1958
3.	Amar Singh Gothwal (SC)	01.07.1963
4.	Pokar Mal Sevda	02.03.1958
5.	Om Prakash Sharma	15.09.1959

C. S. THAKUR, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 12th March 2013

No. A-38016/02/2012-Estt.III—On attaining the age of superannuation, Sh. Om Parkash Dahiya, Sr. Statistical Officer an officer of Subordinate Statistical Service posted in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare has retired from Government Service w.e.f. 28.02.2013 (AN).

ANIL KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 26th February 2013

No. A-32011/5/2012-E.I—The President is pleased to appoint Shri S. Ramakrishnam Raju (a non-government official) as First P. A. (PB-2 with Grade Pay of Rs. 4,800/-) to the Minister of Human Resource Development (Dr. M. M. Pallam Raju) with effect from 15.02.2013 (FN) on co-terminus basis with the present term of the Minister or till he ceases to function as First P. A. to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

No. A-32011/5/2012-E.I.—The President is pleased to appoint Shri P. Srimannarayana (a Non-Government official) as First P. A. (PB-2 with Grade Pay of Rs. 4,800/-) to the Minister of Human Resource Development (Dr. M. M. Pallam Raju) with effect from 14.02.2013 (FN) on co-terminus basis with the present term of the Minister or till he ceases to function as First P. A. to the Minister or until further orders, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 7th December 2012

No. A-19011/15/2012-Estt.—Consequent on her promotion to Grade I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on ad-hoc basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier, and posting in the Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training Order No. 5/9/2012-CS.I (U) dated 30th October, 2012, Ms. Sunita has been appointed as Under Secretary of CSS in the Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 26th November, 2012.

B. L. MEENA, Under Secy.

New Delhi, the 31st December 2012

No. A-19011/13/2012-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer) Order No. 4/16/2012-EO (MM-I) dated 4th December, 2012, Ms. Shubha Sarma, IAS (OR : 1999), Deputy Secretary in Department of Commerce (Ministry of Commerce & Industry) has assumed the charge of Private Secretary to the Minister of Culture (Smt. Chandresh Kumari Katoch) at the level of Deputy Secretary in the forenoon of 5th December, 2012 on co-terminus basis. She will function as Private Secretary to the Minister of Culture for the balance period of her central deputation tenure of four years i.e. upto 25.04.2014 or till she ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

SANJAY KUMAR, Under Secy.

The 3rd January 2013

No. A-19011/16/2012-Estt.—Consequent on his promotion to Grade I (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) on ad-hoc basis for a period upto 31.05.2013 or till the posts are filled up on regular basis, or until further orders, whichever is earlier, and posting in the Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training Order No. 5/9/2012-CS.I (U) dated 30th October, 2012, Shri Abhay Nandan Mishra has been appointed as

Under Secretary of CSS in the Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 24th December, 2012.

SANJAY KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT)

New Delhi-110001, the 21st February 2013

No. A-32013/1/2009-Estt. I—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 5/11/2011-CS-I (U) dated 26th November, 2012, the President is pleased to appoint the following six (6) ad-hoc Under Secretaries of Central Secretariat Service to the Grade I (Under Secretary) of Central Secretariat Service in this Ministry on regular basis for the select lists of Grade I of CSS, i.e. Under Secretary Grade for the years 2009 & 2010, as indicated against the names of officers concerned:—

Sl. No.	Name	Designation	CSL No.	Select list year
(S/Shri)				
1.	Sanjay Mital	Under Secretary (on NIFM Trng.)	6161	2009
2.	J. K. Sahu	Under Secretary	6178	2009
3.	A. P. Singh	Under Secretary	6470	2009
4.	Aujender Singh	Under Secretary	6536	2010
5.	Dayanidhi Joshi	Under Secretary	6685	2010
6.	Pradeep Purohit	Under Secretary	6815	2010

2. The regular appointment of the above officers to the Grade of Under Secretary shall be subject to the final outcome in the OA No. 611/2012 titled "P. S. Bhandari & Ors. Vs. UoI & Ors. in terms of CAT, PB, New Delhi's interim Order dated 24.02.2012, and any other order by any Competent Court in any of the connected matters.

VEERENDRA KUMAR, Under Secy.

New Delhi-110001, the 1st March 2013

No. A-19011/02/2008-Estt.I—On completion of his tenure of Central Deputation, the President is pleased to repatriate Shri Padam Lal Negi, IDAS (92), Director, from the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. the afternoon of 02.03.2013.

2. Further Shri Negi is granted Earned Leave for a period of 25 days from 04.03.2013 to 28.03.2013 with permission to prefix 03.03.2013 (Sunday) and suffix 29.03.2013 (Holiday) and 30-31 March, 2013 (Saturday & Sunday). After the expiry of the above said leave, the services of Shri Negi will stand placed at the disposal of

his parent cadre i.e. the Controller General of Defence Accounts.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

The 14th March 2013

No. A-19011/03/2008-Estt.I—On completion of his tenure of Central Deputation, the President is pleased to repatriate Shri Chaitanya Murti, IFS (MT : 95), Director, from the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. the afternoon of 17.03.2013.

2. Further Shri Murti is granted Earned Leave for a period of 32 days from 18.03.2013 to 18.04.2013 with permission to prefix 16.03.2013 & 17.03.2013 (Saturday & Sunday) and suffix 19.04.2013 (Holiday) and 20-21 April, 2013 (Saturday & Sunday). After the expiry of the above said leave, the services of Shri Murti will stand placed at the disposal of his parent cadre i.e. the State Govt. of Tripura.

DAYANIDHI JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 15th March 2013

No. 9-19/2008-MC—In pursuance of Department of Personnel & Training's O. M. No. 4/41/2012-EO (SM-I) dated 6th March, 2013, the President is pleased to assign the additional charge of the post of Managing Director, National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) (Joint Secretary Level) under the Ministry of Minority Affairs to Shri Y. P. Singh, Joint Secretary in the Ministry of Minority Affairs, in addition to his own charge for a period of six months, with effect from 10.12.2012 to 09.06.2013, or till the new incumbent assumes the charge of the said post, or until further orders, whichever is earlier.

MAITREYEE ROY, Dy. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 13th March 2013

No. E(GP)2009/3/4—The President is pleased to appoint the undermentioned 145 Group 'B' Officers of Mechanical Engineering, Department of Indian Railways belonging to the Railways as mentioned against each, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Mechanical Engineers (IRSME) with effect from 31.12.2012 :—

PANEL FOR 2010-11

Sl. No.	Name	Railway
1	2	3
1.	S. Satyanarayana Reddy	SCR
2.	J. K. Pal	ER

1	2	3
3.	Tamal Chowdhury	ER
4.	C. M. Dixit	NER
5.	Gajendra Mishra	NER
6.	P. A. Rehman	RDSO
7.	S. K. Mishra	RDSO
8.	D. Rajamani	SR
9.	K. V. Sundaresan	SR
10.	Raj Bali	NER
11.	Ashok Kumar	NER
12.	Md. Javed	NER
13.	D. K. Tewari	NER
14.	N. C. Dey Sarkar	ER
15.	S. A. H. Rizevi	NR
16.	A. B. Paul	ER
17.	A. Q. Khan	ER
18.	J. P. Mondal-II	ER
19.	Balbir Singh	NWR
20.	S. Rajendran	ICF
21.	Jagdish Prasad Sharma	NWR
22.	K. S. Sridharan	ICF
23.	Santosh Kumar Singh	DLW
24.	Manoj Kumar	DLW
25.	Mukesh Ojha	DLW
26.	A. K. Singh	WR
27.	A. Chandrappa	RWF
28.	K. C. Ghosh	SER
29.	B. Prasad	SER
30.	A. K. Jaiswal	SER
31.	P. K. Dey	SER
32.	S. Pazhanichamy	RWF
33.	Yoginder Kumar	NR
34.	Rakesh Kumar	NR
35.	Arvind Kumar	NR
36.	S. K. Babbar	NR
37.	U. Karunakumar	ICF
38.	V. K. Chadha	NR
39.	S. K. Gambhir	NR

1	2	3
40.	Sanjay Kumar	NR
41.	Gurjit Singh	RCF
42.	Verghese Joshua	ICF
43.	K. K. Malhotra	DLW
44.	B. L. Nag	DLW
45.	Shammi Nayar	DLW
46.	Rakesh Sinha	DLW
47.	R. K. Srivastava	DLW
48.	V. K. Srivastava	NCR
49.	Rajendra Joshi	WR
50.	R. B. Vijayvargiya	WR
51.	M. Srinivas	WR
52.	K. L. Saini	WR
53.	Govind Sahai	WR
54.	M. M. G. W. Beg	NER
55.	Manjeet Singh	RDSO
56.	P. K. Srivastava	RDSO
57.	R. David Muthuraj	ICF
58.	G. Venkatachalapathy	SR
59.	Baljit Singh (SC) (Promoted against SC vacancy)	RCF
60.	S. K. Prasad (SC) (Promoted against SC vacancy)	ER
61.	Ashish Kumar Saha (SC) (Promoted against SC vacancy)	ER
62.	Mukhtiar Singh (SC) (Promoted against SC vacancy)	DCW
63.	Bharat Bhusan (SC) (Promoted against SC vacancy)	CLW
64.	Ranjit Kumar Mandal (SC) (Promoted against SC vacancy)	NFR
65.	Ved Prakash (SC) (Promoted against SC vacancy)	ECR
66.	D. Sanjeeva Rao (SC) (Promoted against SC vacancy)	SCR
67.	S. C. Meena (ST) (Promoted against ST vacancy)	RDSO
68.	R. S. Beeka (SC) (Promoted against SC vacancy)	RCF
69.	Madan Marandi (ST) (Promoted against ST vacancy)	CLW

1	2	3
70.	U. Rajendran	ICF
71.	K. Babu Rao (SC) (Promoted against SC vacancy)	SCR
PANEL FOR 2011-12		
1.	Tejinder Singh	RCF
2.	K. Krishnaraj	SWR
3.	Idrish Ali	NER
4.	Mehtab Singh	RCF
5.	Chamkaur Singh	RCF
6.	A. K. Verma	RCF
7.	Sukhjinder Singh	RCF
8.	Pardeep Sharma	RCF
9.	S. I. Ali	RCF
10.	Joginder Singh	RCF
11.	Ashit Gupta	NFR
12.	J. P. Singh	NFR
13.	A. K. Saxena	NFR
14.	B. D. Singh	NFR
15.	M. C. Dhankar	NWR
16.	R. K. Malik	NR
17.	P. K. Mathur	NCR
18.	G. D. Chowdhury	ER
19.	Gopal Pathak	ER
20.	D. R. Nath	ER
21.	Sreeram Singh	ER
22.	D. K. Sarkar	RDSO
23.	Md. Ilyas	SWR
24.	P. Ramchandran	CR
25.	K. Srinivas	SER
26.	Atul Kumar Bhardwaj	DCW
27.	U. C. Srivastava	DCW
28.	Paramvir Singh	DCW
29.	K. K. Sharma	CLW

1	2	3
30.	B. Chakraborty	CLW
31.	A. K. Tripathi	CLW
32.	M. Sar	CLW
33.	Jagat Babu	CLW
34.	G. C. Mukherjee	CLW
35.	M. Balakrishnan	SR
36.	P. M. Poullose	SR
37.	S. Sasidaran	SR
38.	Ashok Sinha	ER
39.	B. Chandrasekaran	ICF
40.	Utpal Sarma	NFR
41.	Subrata Bhowmick	NFR
42.	Supriya Bose	ER
43.	P. S. Yadav	ECR
44.	R. N. Singh	ECR
45.	Sunil K. Rai	ECR
46.	M. Siddiqui	ECR
47.	K. K. Singh	ECR
48.	C. K. Ganesan	SCR
49.	M. A. Rafeeq	SCR
50.	Arvind Kumar	SCR
51.	Abid Pasha	SCR
52.	K. D. Sharma	ECR
53.	O. P. Chaubey	RDSO
54.	Bhushan Kumar Goyal	RCF
55.	Baldev Raj	RCF
56.	Shiv Kumar	RCF
57.	Maharam (SC) (Recommended against SC vacancy)	NER
58.	V. Venugopal (SC) (Recommended against SC vacancy)	ICF
59.	R. Ravichandran (SC) (Recommended against SC vacancy)	SR
60.	R. Paranthaman (SC) (Recommended against SC vacancy)	SR
61.	L. N. Dahama (SC) (Recommended against SC vacancy)	WR
62.	Megh Raj (SC) (Recommended against SC vacancy)	NR

1	2	3
63.	M. Murlidhar (SC) (Recommended against SC vacancy)	RWF
64.	P. P. Haldar (SC) (Recommended against SC vacancy)	ER
65.	M. Taranirajan (SC) (Recommended against SC vacancy)	ICF
66.	Prem Singh (SC) (Recommended against SC vacancy)	CR
67.	Ram Pratap (SC) (Recommended against SC vacancy)	NWR
68.	R. S. Mondal (ST) (Recommended against ST vacancy)	SER
69.	D. Perumal (ST) (Recommended against ST vacancy)	SWR
70.	Ashok Kumar	DLW
71.	A. T. V. S. Satyanarayana	SCR
72.	V. P. Venkatesh	RWF
73.	Ghanshyam Singh	ECR
74.	Fariyad Alam	ECR

H. K. JAGGI, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 28th February 2013

No. 6/395/07-Admn.I—On attaining the age of superannuation, Shri V. P. Singh, Section Officer of Ministry of New & Renewable Energy has retired from Government Service, with effect from the afternoon of 28th February, 2013.

SURESH KUMAR, Under Secy.

The 1st March 2013

No. 6/399/06-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Prem Chand, Grade I (Under Secretary) of CSS to the Selection Grade (Deputy Secretary) purely on ad-hoc basis w.e.f. 07.03.2013 in this Ministry on personal upgradation of the post held i.e. Under Secretary till his retirement on 31.05.2013 in accordance with the terms and conditions stipulated in the Department of Personnel & Training O. M. No. 4/2/2013-CS-I (D) dated 7th March, 2013.

SURESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND
BROADCASTING

New Delhi-110001, the 18th February 2013

No. 83/2013 (F. No. 22012/6/2012-Admn.II)—Consequent upon his promotion to the Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service on ad-hoc basis vide DoPT's Order No. 4/2/2013-CS-I (D) dated 29.01.2013, the President is pleased to appoint Shri P. L. Verma, (CSL No. 5420), Grade-I officer (Under Secretary) of the Central Secretariat Service cadre of this Ministry, as Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service cadre of Ministry of Information & Broadcasting in PB-3, Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 01.02.2013 (F/N). He is taken on the rolls of the Main Sectt. as Deputy Secretary with effect from the same date i.e. 01.02.2013 (F/N). Further, his ad-hoc promotion is subject to the conditions as laid down in DoPT's Order ibid.

2. Consequent upon his promotion as Deputy Secretary, Shri P. L. Verma is hereby given assignment as Deputy Secretary [B (D) & B (Fin.)] in the Main Sectt. with effect from 19.02.2013 (F/N) and until further orders.

S. S. BEDI, Under Secy.

The 19th February 2013

No. 89/2013 (F. No. 6/2/2007-Admn. II)—The President is pleased to appoint Shri Jitendra Shankar Mathur, IAS (MP : 82), Additional Secretary in Ministry of Information & Broadcasting as Additional Secretary & Financial Adviser in M/o Information and Broadcasting with effect from 18.02.2013 (F/N) i.e. the date of assumption of charge of the post of Additional Secretary & Financial Adviser.

S. S. BEDI, Under Secy.

No. 90/2013 (F. No. 6/2/2007-Admn. II)—The President is pleased to appoint Shri Chirravuri Viswanath, IAS (AP : 81), Additional Secretary & Financial Adviser in Ministry of Information & Broadcasting as Additional Secretary in M/o Information and Broadcasting with effect from 18.02.2013 (F/N) i.e. the date of assumption of charge of the post of Additional Secretary.

S. S. BEDI, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 7th March 2013

No. A-22012/4/2013-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri Mrinal Kant Tripathy, Indian Ordnance Factory Service (1998) as Deputy Secretary in the Ministry of Urban Development in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 07.03.2013 (FN) for a period of 4 years or until further orders whichever is earlier.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

The 14th March 2013

No. A-22011/7/2012-Admn.I—The President is pleased to appoint Shri R. S. Meena (CSL No. 1928) as Joint Secretary (In-situ) in the Ministry of Urban Development in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- with effect from 14.01.2013 (FN).

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 22nd March 2013

No. A-11019/01/2009-Adm. I—The President is pleased to appoint Sh. Babu Lal Meena, a Grade-I Officer of CSS (CSL No. 5520) to Selection Grade (Deputy Secretary) of the Cadre purely on ad-hoc basis with effect from 13.03.2013 (FN) until further orders.

PAWAN KUMAR, Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013